

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015—फाल्गुन 29, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन के पत्र क्रमांक बी-11-3-2014-2, दिनांक 05 दिसम्बर 2014 द्वारा रबी 2014-15 के पटवारी हल्का की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छिन्दवाड़ा एवं विदिशा जिले में संलग्न अनुसार संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धूर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2014-15 हेतु अधिसूचित की जाने वाली
फसलवार पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

मौसम	रबी	वर्ष	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
			2014-15		पटवारी	पटवारी मुख्यालय	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	हल्का नं.	का नाम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	1	रोहना कलौं	गेहूँ सिंचित	—	—	—
			3	धुनिया	गेहूँ सिंचित	—	—	—
			4	गुरेया	गेहूँ सिंचित	—	—	—
			5	पोआमा	गेहूँ सिंचित	—	—	—
			6	गांगीवाड़ा	गेहूँ सिंचित	—	—	—
			7	मानेगांव	गेहूँ सिंचित	—	—	—
			8	परतला	गेहूँ सिंचित	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	खजरी	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
10	खापाभांड	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
12	लोनिया करबल	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
13	चन्दनगाँव	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
14	सर्रा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
15	इमली खेड़ा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
16	सारसवाड़ा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
17	बोरिया	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
18	पखडिया	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
19	छिन्दवाड़ा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
21	सोनाखार	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
23	लहवडुआ	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
24	रोहना	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
25	केवलारी	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
28	कपरखाड़ी	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
30	चारगाँव	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
31	सिवनी मेधा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
32	पिपरिया लालू	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
33	लकडाई जग्होड़ी	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
34	सारना	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
35	बनगाँव	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
36	जमुनिया	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
37	राजाखोह	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
38	सिहोरा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
40	आवरी टेकर	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
41	मोहगाँव	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
42	भूतेरा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
43	कर्कई	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
45	बोहना	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
46	काराघाट	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
47	नेर	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
48	चहिया कलाँ	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
49	खैरी भूताई	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
50	रामगढ़ी	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
52	चहिया खुर्द	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
53	उमरिया ईसरा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
54	रगीन खापा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
55	पुलपुलडोह	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
56	झांडारिया खुटिया	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
57	धमनिया	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
58	सहपुरा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
59	सुसरई	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
60	पिण्डरई	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-
62	माल्हनवाड़ा	गेहूँ	सिंचित	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			63	सोनपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			64	बीजेपानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			65	कोटलवर्रा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			66	थावरी कलौं	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			67	कुहिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			68	भाजीपानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			69	खापा कलौं	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			70	उमरहर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			73	सॉख	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			74	उभेगाँव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			75	गोंदरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
छिन्दवाड़ा	परासिया	परासिया	1	हरई कलौं	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			2	बरवई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			3	लिखावाड़ी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			4	बेलगाँव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			11	कारीडोगरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			12	झुगरिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			18	-	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			19	पेजनवाड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			23	छिन्दा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			25	सिरबोरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			26	मंडला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			27	सायला ढाना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			29	जमुनिया पठार	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			30	उरधन	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			31	तुमडी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			32	झुर्माल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			33	तेन्दूखेड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			34	पलटवाड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			35	हरणभटा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			36	पिण्डरई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			37	ढाला	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			42	जाटाछापर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			50	सहपानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			51	खेरचेतू	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			52	फूटेरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	1	गढ़ाबरियाव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			2	जुगांवानी	-	गेहूँ असिंचित	-	-
			3	गाडरवाड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			4	हिरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			5	मोहली भारत	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			6	रिछेड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	लहगडुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
8	नान्दनवाड़ी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
9	ढोडाकुही	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
10	कहुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
11	साजवा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
12	सोनपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
13	परतला	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
14	पत्थरकटी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
15	कोरपानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
16	हिवरासानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
17	चिखली मुकासा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
18	राफा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
19	घोघरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
20	उमरिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
21	बॉका	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
22	चरनखापा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
23	नन्दोरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
24	कालिहया	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
25	मन्दानगढ़	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
26	लछुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
27	राहीवाड़ा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
28	बाबई	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
29	पटनिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
30	बडेगाँव	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
31	बाकामुकासा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
32	सिंजोडी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
33	रजौला	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
34	खाकरा चोरई	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
35	गुरैया	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
36	खामीहीरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
37	चिमोआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
38	कुदवारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
39	तेन्दनी माल	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
40	मानेगाँव	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
41	बान्दरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
42	अकलमा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
43	खिरेटी	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	-	-	-	-	-
44	खामी	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
45	हिर्मुकासा	गेहूँ सिंचित	-	-	-	-	-	-
56	बन्धानी	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	-	-	-	-	-
57	जुगवाड़ा	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	-	-	-	-	-
58	भाजीपानी	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2	झिरपा	-	-	चना	-
			3	माहुलझिर	-	-	चना	-
			4	बन्धाबोदलकछार	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			5	अन्होनी	-	-	चना	-
			6	जमुनिया	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			8	चावलपानी	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			9	खापारस्वामी	-	-	चना	-
			10	मानेगाँव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			17	खापाखुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			21	कुर्सीढाना	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			22	जामुनढोगा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	58	भाजीपानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			64	चिखलार	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			69	बिन्दरई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			73	खिडकीकनेरी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			75	जम्बाकिराडी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			77	भटोडीखुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			78	कटकुही	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			79	मोहगाँवकिसन	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			84	हनोतिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			90	घुटटी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			92	बुधवारा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			98	बुर्जकलौ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			99	कोहनिया रैय,	गेहूँ सिंचित	-	-	-
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	इकल बिहरी	41	खूनाझिर कलौं	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			42	बडगोना जोशी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			43	शिकारपुर	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			44	अर्जूनवाडी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			45	लोनिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			46	लिंगा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			47	गोरेघाट	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			48	सरोरा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			49	पालामउ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			50	कामठी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			51	चारगाँव करबल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			52	राजेगाँव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			53	पठारनाई	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			54	जाम	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			55	चिखलीकलौं	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			56	लहगडुआ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			57	बीसापुर कलौं	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			58	भांडखापा	गेहूँ सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			59	पिनडरई खुर्द	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			61	अडवार	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			62	इकलबिहारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			63	मउ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			65	गढमउ	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			66	हिवरा वासूदेव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			67	गोरखपुर	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			68	सारंगबिहारी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			69	झिरिया	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			70	निशान दर्याव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			71	नवलगांव	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			72	जाखावाडी	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
			73	ग़वारा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			75	तारा	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			76	तन्सरा माल	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			77	सिल्लेवानी	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			78	रंगारी तालाब	गेहूँ सिंचित	-	-	-
			79	जमुनिया माल	गेहूँ सिंचित	-	-	-

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2014-15 हेतु अधिसूचित की जाने वाली
फसलवार पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

मौसम	रबी	वर्ष	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म. का	पटवारी	पटवारी मुख्यालय	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
विदिशा	विदिशा	वृत्त-1	5	शेरपुरा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-
		वृत्त-2	92	अहमदपुरा कस्बा	गेहूँ सिंचित	-	चना	-